

रामपाल को जल्दी ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी सरकार : अनिल विज

By : INVC Team Published On : 19 Nov, 2014 04:55 PM IST

✖ आई एन वी सी , चंडीगढ़, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने के लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध है। इसके लिए सरकार बिना किसी जानमाल के नुकसान के सतलोक आश्रम बरवाला से संत रामपाल को जल्दी ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी। श्री विज ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों की अनुपालना के साथ-साथ आम आदमी को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आश्रम में ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं करना चाहती है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने अभी तक बिना गोली-बारी के आश्रम से हजारों निर्दोष लोगों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा, लगभग 5 हजार लोग अब भी आश्रम में मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में विपक्षी पार्टियां आग में घी डालने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को राजनैतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते परन्तु कांग्रेस तथा इनेलो सहित विपक्षी पार्टियों का भी दायित्व बनता है कि संत रामपाल से यदि किसी भी पार्टी के नजदीकी संबंध हैं तो वे रामपाल को अदालत के आदेशों की अनुपालना करने की सलाह दें। रामपाल ने अपने बचाव के लिए आश्रम में मानव श्रृंखला बना रखी है। श्री विज ने कहा कि पत्रकारों को लगी चोट के संबंध में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को बने मात्र 20 दिन हुए हैं इसके बावजूद मामले को धैर्यपूर्वक सुलझाया जा रहा है और जल्द ही आरोपी रामपाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेंगे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/रामपाल-को-जल्दी-ही-गिरफ्तार/>